

January 21, 2022

To,
The Manager (Corporate Relations)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
Scrip Code: 506390

Sub: Open offer for acquisition of up to 6,001,268 fully paid-up equity shares of face value of INR 10 each (“Equity Shares”) of Clariant Chemicals (India) Limited (“Target Company”) from the Public Shareholders of the Target Company pursuant to and in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (“Takeover Regulations”, and such open offer for acquisition referred as “Open Offer”).

Dear Sir/Madam,

With regard to the captioned Open Offer, the Acquirer has appointed ICICI Securities Limited, as the Manager to the Offer pursuant to and in accordance with, Regulation 12(1) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (“SEBI (SAST) Regulations”).

A detailed public statement was published on January 10, 2022 and a draft letter of Offer was filed on January 17, 2022. In this context and in relation to the detailed public statement and the draft letter of offer, a corrigendum dated January 20, 2022, thereto was published on January 21, 2022, a copy of which is enclosed herewith for your records.

Terms not defined herein shall have the meaning ascribed to them under the detailed public statement and the draft letter of offer, including amendments thereto.

Yours sincerely,

For **ICICI Securities Limited**



Sameer Purohit
Vice President

SEBI Registration : INM000011179
CIN No.: L67120MH1995PLC086241

ICICI Securities Limited

Registered Office:

ICICI Venture House
Appasaheb Marathe Marg,
Prabhadevi, Mumbai - 400025, India

Tel (91 22) 6807 7100

Fax (91 22) 6807 7801

Website Address: www.icicisecurities.com

ट्रांसकोर्प इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN: L51909DL1994PLC235697
 पंजीकृत कार्यालय :- प्लॉट नं. 5, एच. ए. फोर्ड रोड, सेक्टर 18 ए, द्वारका, फेज-11, नई दिल्ली-110075
 वेबसाइट : www.transcorpint.com, e-mail: grievance@transcorpint.com, Phone: 91-11-30418901-05, Fax: 91-11-30418906

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अधिकाए) विनियम, 2015 के अनुसार एवं एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के संचालक मण्डल की आगामी सभा दिनांक 31.12.2021 को समाप्त हुई तिमाही व नौ माही के गैर अंकेक्षित खातों (एकल व समेकित) के अनुमोदन एवं अन्य कार्यों को करने हेतु **शुक्रवार दिनांक 28.01.2022** में आयोजित की जाएगी। नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.transcorpint.com के निवेशक संचार अनुभाग व www.bseindia.com के कॉर्पोरेट घोषणा अनुभाग पर भी उपलब्ध है।

कुछ ट्रांसकोर्प इंटरनेशनल लिमिटेड ह./-
 दिनांक : 19.01.2022 विलीन कुमार मोरवाल
 स्थान : जयपुर समूह कंपनी सचिव

SIGNATURE GLOBAL Proxima
 LICENCE NO.: 89 OF 2019 DATED 02.08.2019

RERA REGISTRATION NO. : RC/REP/HARERA/GGM/383/115/2019/77
 (www.haryanarera.gov.in)

सिग्नेचर ग्लोबल प्रोक्सिमा-1 अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग

द प्लाजियो होटल, प्लॉट नंबर 292-296, सेक्टर 29, हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम में, 19 जनवरी, 2022, बुधवार को आयोजित 'सिग्नेचर ग्लोबल प्रोक्सिमा-1' अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, सेक्टर 89, गुरुग्राम स्थित प्लेसट के री-ड्राई के सफल आवेदकों की सूची।

| 2BHK TYPE-01 (581.396 Sq ft.) | | | | 2BHK TYPE-02 (588.586 Sq ft.) | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 22839 | 23452 | 23680 | 27496 | 22547 | 22757 | 24127 | 28060 | 28448 |
| 23447 | 23454 | 23969 | 27721 | 22567 | 23836 | 26563 | 28406 | 28621 |
| 23448 | 23663 | 24112 | | | | | | |

| 2BHK TYPE-01 (581.396 Sq ft.) WAITING LIST | | | | 2BHK TYPE-02 (588.586 Sq ft.) WAITING LIST | | | |
|--|----------|----------|--|--|----------|----------|--|
| 1. 27722 | 2. 22796 | 3. 22810 | | 1. 28172 | 2. 22782 | 3. 23756 | |

| 2BHK TYPE-03 (598.220 Sq ft.) | | | | 2BHK TYPE-04 (590.169 Sq ft.) | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 22794 | 23602 | 26720 | 27895 | 28631 | 23745 | 24106 | 28443 |
| 23507 | 23643 | 27236 | 28155 | | | | |
| 23574 | 24104 | 27376 | 28537 | | | | |

| 2BHK TYPE-03 (598.220 Sq ft.) WAITING LIST | | | |
|--|----------|----------|--|
| 1. 23619 | 2. 22814 | 3. 28313 | |

1sq.mt. = 10.7639 sq.ft.

डिस्कलेजर:

- सिग्नेचर ग्लोबल प्रोक्सिमा-1 के प्लेसट का री-ड्राई हरियाणा अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत रखे गए मापदंडों के आधार पर। डी डी सी पी अधिकारियों की निगरानी में किया गया। सुनिश्चित आवंटन सूची आरोही क्रम में है। (ऊपर से नीचे)
- अधिक जानकारी के लिए www.signatureglobal.in पर सॉन ऑन करें। जहाँ सफल आवेदकों की सूची, नाम व प्लेसट नम्बर स्थित उपलब्ध है।

SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2000PTC104787
 Regd. Off.: 13th Floor Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, New Delhi-110001
 Corp. Off.: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001
 Email: customercare@signatureglobal.in, Ph.: 0124-4908200, 9311144624

LUMAX ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, हरकेश भवन-II, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नागल राज, नई दिल्ली-110046
 वेबसाइट: www.lumaxworld.in/lumaxindustries दूरभाष: 011-49857832
 ईमेल: lumaxshare@lumaxmail.com, सौभाग्य: L74899DL1981PLC012804

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारक के निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र गुण / खो गए सूचित किए गए हैं तथा कंपनी निम्नलिखित शेयरधारक को डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया कर रही है:

| क्र. सं. | शेयरधारक का नाम | फोलियो सं. | प्रमाणपत्र सं. | खिलीकृत नं. से | खिलीकृत नं. तक | शेयरों की सं. |
|----------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. | नरेंद्र कुमार कुल | N 001334 | 95587 | 4501611 | 4501710 | 100 |
| | | | | | | 100 |

किसी व्यक्ति का यदि उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा है तो उसे कंपनी के ऊपर उल्लिखित पंजीकृत पते पर इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 15 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात कंपनी द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कंपनी द्वारा डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी।

कुछ ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ह./-
 दिनांक : नई दिल्ली 20.01.2022
 स्थान : सदासता संख्या : 28161

RBL BANK Ltd.
 पंजीकृत कार्यालय: 1ला तल, गुरुग्राम, कोलकाता-416001
 अंचल कार्यालय: हंसारव बिल्डिंग, ऊपरी भूखंड, 15, बाखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

13.01.2022 का जारी ई-नोलांम (विनोद) सूचना का शुद्ध पत्र

श्री. मरुत स्टील (श्री मदनराज गंग का प्रायःइंटरग्रुप प्रतिष्ठान) को खाता के लिये नये वर्गित सम्पत्ति की विनोद के लिये 13.01.2022 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित ई-नोलांम सूचना के संदर्भ में है।

गिरीवी सम्पत्ति का विवरण: श्री होल्डर भवन नं. 113/11, एक हॉल तथा वेस्टमेंट में सीढ़ियाँ, कवर्ड एरिया 69.456 वर्ग मी., भू तल पर दो शॉप्स एवं सीढ़ियाँ, कवर्ड एरिया 66.072 वर्ग मी., एक कार्यालय, एक हॉल, एक शौचालय-बाथरूम तथा प्रथम तल पर सीढ़ियाँ, कवर्ड एरिया 108.617 वर्ग मी., एक कार्यालय, एक हॉल, एक प्रसाधन एवं बाथरूम, किचन तथा दूसरे तल पर सीढ़ियाँ कवर्ड एरिया 108.617 वर्ग मी., तीन कार्यालयों, फर्नीचर, एक प्रसाधन तथा बाथरूम तथा तीसरे तल पर सीढ़ियाँ, कवर्ड एरिया 71.313 वर्ग मी., जो नवगुण मार्केट, गाजियाबाद, उ.प्र. में श्री मदनराज गंग के स्वामित्व में सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चूंकि, आदेश तिथि 11.01.22 के माध्यम से जनाईत याचिका सं. 2020 के 564 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि 28.02.22 तक बैंक अथवा वित्तीय संस्थान किसी संस्थान अथवा व्यक्ति या पंजी व किसी अन्य कॉर्पोरेट एजेंसी को किसी सम्पत्ति के संदर्भ में नोलांम की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अतः 13.01.2022 को बैंक द्वारा जारी की गई ई-नोलांम सूचना याचक को जारी है एवं नवगुण 07.02.2022 को आयोजित होने वाली ई-नोलांम निरस्त की जाती है। अतः जनता को सूचित किया जाता है कि इस सूचना का स्थान रखा है।

दिनांक : 21.01.2022 हस्ता/-
 स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी आरबीएल बैंक लि.

बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda
 30, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052

नियम 8(1) कम्पाज (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अयोध्यास्थरी ने वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिप्रतिक्रमण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ोदा का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रवर्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक श्री कनिष्क खंडेलवाल, श्रीमती शालिनी खंडेलवाल, श्रीमती अरुणी खंडेलवाल को मांग सूचना दिनांक 11.11.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लिखित राशि ₹ 75,27,762.00 (रु. पचाहत्तर लाख सत्तासठ हजार सात सौ बासठ मात्र) दिनांक 24.01.2021 तक और दिनांक 25.01.2021 से मबिध का ब्याज, लागत, प्रमाय एवं खर्च इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंतर प्रति मुताबत करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभूतगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अयोध्यास्थरी ने इसमें नये वर्गित सम्पत्ति का कम्पाज, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रवर्त शक्तियों के अन्तर्गत 18.01.2022 को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संघितियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा सूचना के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ बड़ोदा, के प्रमाय वारंटे ₹ 75,27,762.00 (रु. पचाहत्तर लाख सत्तासठ हजार सात सौ बासठ मात्र) दिनांक 24.01.2021 तक और दिनांक 25.01.2021 से मबिध का ब्याज, लागत, प्रमाय एवं खर्च इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उपरोक्त का ध्यान एतद की धारा 13 की उप धारा (b), के प्रावधानों के अन्तर्गत सुखित परिस्थितियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सांख्यिक बंधक दिनांकित 23.09.2019, सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि द्वितीय तल, बिना उद्य/टेरेस के अधिकार के, टिस्टट पॉलिग प्लेस में अतिभाजित एक चोपार्ड हिस्सा / अधिकार के साथ, जो संपूर्ण रिहायशी संपत्ति नं. 42 का हिस्सा है, क्षेत्रफल 250.93 वर्ग मी., ब्लॉक-ए3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती शालिनी खंडेलवाल और श्री कनिष्क खंडेलवाल के नाम पर है।

दिनांक : 18-01-2022, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ोदा

केनारा बैंक Canara Bank
 पंजीकृत कार्यालय: पंचम मं, नई दिल्ली-110032
 फोन नं. 9106653336
 ई-मेल: cb19153@canarabank.com

सेवा में, श्री दीपक कुमार विद्यार (ऋणधारक) पुत्र बनेमाली विद्यार निवासी: 10 ए/10859, टैक रोड, बार्निकी कॉलोनी, सत नगर, करोल बाग, दिल्ली-110005 श्री रमेश कुमार (गैरर) पुत्र शिवजी सिंह निवासी: इन्डियन-148/बी, टोप्राण गांव, दिल्ली-110012 शिव महोदय, निवासी: वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिप्रतिक्रमण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना कि, श्री दीपक कुमार विद्यार, पुत्र बनेमाली विद्यार ने समय-समय पर हमारी पैनएरसी पूरा शाखा से निम्न ऋण/साख सुविधाएं प्राप्त की है:

| लिपि | ऋण गौर | 31.12.2021 को देयता | ब्याज दर |
|------------|-------------------|--|----------|
| निधि आवासि | 1. रु. 3,85,000/- | 31.12.2021 को रु. 2,31,272.59/- बिनास भुगतान 11.45% की दर से आगे के ब्याज सहित वक्त की गई/वहन की जाने वाली सभी लागतों, चार्जों, खर्च तथा अनुभूतिक खर्च के साथ किया जाएगा। | 11.45% |
| | 2. रु. 2,00,000/- | 31.12.2021 को रु. 141470.46 पैसे बिनास भुगतान 14.10% की दर से आगे के ब्याज सहित वक्त की गई/वहन की जाने वाली सभी लागतों, चार्जों, खर्च तथा अनुभूतिक खर्च के साथ किया जाएगा। | 14.10% |

उपरोक्त ऋण/साख सुविधाएं परिस्थितियों की गिरीवी विधित प्रभूत है जिसे हमारे पक्ष में आपके द्वारा निष्पादित संबंधित दस्तावेजों के द्वारा गिरीवी रखा गया है जिसका विधि रूप से विवरण यहाँ नीचे अनुसूची में दिया गया है।

30.12.2020 को इस ऋण को संपीर्ण के रूप में वगैरि कर दिया है। अतः हम विषय अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एतद्वारा आपके लिये सूचना जारी कर आपको निदेश देते हैं कि सूचना की तिथि से सात दिनों के भीतर उपस्थित तथा अद्यतन ब्याज एवं अन्य खर्च के साथ 31.12.2021 को रु. 3,72,743.05 पैसे को सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम विषय अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करेंगे। पुनः आपको हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी भी रूप से अनुसूची में वर्णित प्रभूत किसी भी परिस्थितियों का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है। यह विषय अधिनियम एवं अथवा किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत हमें उपलब्ध किसी अन्य उपचारों के प्रति पुनर्वाह रहित है। आपका ब्याज प्रतिभूत परिस्थितियों को निर्माणित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में सरकारी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आग्रह की जाती है। यह मांग सूचना शाखा के अधिकार में उपलब्ध आपके अंतिम ज्ञाप पत्र पर उपयुक्त अभिलेखित के साथ पंजीकृत डाक से भी जारी की गई थी।

अनुसूची

गिरीवी रखी गई/हाइपोथेकेटेड परिस्थितियों का विशिष्ट विवरण इस प्रकार है:

| गिरीवी/हाइपोथेकेटेड परिस्थितियों पर के अनुसार | विस्तृत विवरण इस प्रकार है: |
|---|---|
| फोर व्हीलर कार | फोर व्हीलर कार, वैक एवं मॉडल: मार्सल आर्टो के-10 तीन एलएएसआई सेरिस नं. MA3E2DEIS00219331 इंजन नं. 7657238, पंजी. सं. DL4CAU3684 |

दिनांक : 14.01.2022 प्राधिकृत अधिकारी केनारा बैंक
 स्थान : नई दिल्ली

KESORAM KESORAM INDUSTRIES LIMITED
 Registered Office and Corporate Office: 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001, West Bengal, India. Tel: +91 33 2243 5453
 Contact person: Raghuram Nath, Company Secretary and Compliance Officer, E-mail: corporate@kesoram.net, Website: www.kesocorp.com, Corporate Identity Number: L17119WB1919PLC003429

FINAL DEMAND CUM FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN: IN9087A01017) ON WHICH FIRST AND FINAL CALL MONEY IS TO BE PAID

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the relevant rules made thereunder, the Final Demand cum Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to holders of Rights Equity Shares, whose e-mail address is registered with the Company or its Registrar and Transfer Agent - MCS Share Transfer Agent Limited ("RTA") or the Depository Participant(s) ("DP") as on the First and Final Call Record Date i.e. Thursday, December 2, 2021. Further, physical copy of Final Demand cum Forfeiture Call Notice along with the detailed instructions and payment slip has been dispatched through permitted modes at the registered address of those shareholders: a) who have not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or b) who have specifically registered their request for the hard copy of the same. The same is also available on the Company's website at www.kesocorp.com (Link: <https://www.kesocorp.com/DCS/rights-issue.php>). The Company has completed the despatch on January 20, 2022.

The Fund Raising Committee of Directors, duly authorised by the Board, at its meeting held on January 14, 2022 has approved sending of a Final Demand cum Forfeiture Notice for payment of First and Final Call Money of ₹ 25/- per partly-paid Equity Share (comprising ₹ 5/- towards face value and ₹ 20/- towards securities premium) as First and Final Call Money ("Final Demand cum Forfeiture Notice") to the holders of such partly paid-up Equity Shares on which the First and Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand cum Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

| Final Demand cum Forfeiture Call payment period | From | To | Duration |
|---|--------------------------|---------------------------|----------|
| | Friday, January 21, 2022 | Friday, February 04, 2022 | 15 days |

Modes of Payment

| | |
|--|---|
| (a) Cheque / Demand Draft (made payable to) ¹ | a. Kesoram Industries Limited Call Money – R/A/C (for resident shareholders) |
| (b) R-WAP | b. Kesoram Industries Limited Call Money – NR/A/C (for non-resident shareholders) |

¹ Post the merger of certain Public Sector Banks ("PSBs") with other banks, the cheques of the merged PSBs have become invalid effective April 1, 2021. Shareholders may please note that payment of First and Final Call Money made using cheques of such PSBs are liable to be rejected and will not be accepted by the Banks.

Note: NO-ASBA facility is available for making application and payment.

In case a shareholder chooses to pay through Cheque/DD, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; First and Final Call Notice No.; DP ID-Client ID / Folio No.; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented at **IndusInd Bank Limited** at any of the following locations during banking hours on or before **Friday, February 04, 2022**:

| | |
|--------------------------------------|---|
| For Resident Shareholders | Ahmedabad -World Business House, M. G. Road 'Nr. Parimal Garden, Ellis Bridge Ahmedabad - 380 006. Ahmedabad, Mani Nagar -IndusInd Bank Ltd. Shant Rajkot Height,Opp. Vallabh wadi, Ramdargh jawahar chowk, Mani Nagar, Ahmedabad- 380 008, Gujarat. Rajkot -Ground Floor, Nakshatra IV, Dr.Radhakrishnan Road, Opp. Rajkumar College, Near Marwadi Shaves, Gymkhana Road, Rajkot - 360001, Gujarat. Baroda -Ground Floor & 1st Floor, Gold Croft, Vishwas Colony, Jetalpur Road, Baroda - 390 005 Bangalore -Ground Floor, Centenary Building, No. 28, M. G. Road, Bangalore - 560 001. Chennai -No.3 Village Road Nungambakkam, Chennai- 600 034. Gurgaon -Block A, Sushant Lok, Phase I, Tower B, First India Place, 'Gr. Floor, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurgaon 122002, Haryana. Hyderabad -H.No.8-2-277/3 & 3A, Laxmi Plaza, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034. Indore -Industry House 15 Agra Mumbai Road, 'Old Palasia, Indore - 452 001. Jaipur -Sangam Complex, Gr.Flr. Church Road, Jaipur 302 001. Kolkata -Savitri Towers, 3A, Upper Wood Street, Kolkata - 700 017. Kolkata -IndusInd Bank Ltd., Ground Floor, Megacity Chambers, 1 India Exchange Place, Kolkata - 700 001, West Bengal. Lucknow -Ground Floor, HT House 25, Ashok Marg, Lucknow - 226001. New-Delhi -Dr. Gopal Das Bhawan 28, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Pune -2401, Gen.Thimmayya Rd. (Cantonment), Pune - 411 001. Surat -G-2, Empire State Bldg., Near Udhana Darwaja, 'Ring Road, Surat 395 002 Mumbai -IndusInd House, 425, Dadasaheb Bhadkamkar Marg, Mumbai - 400 004 Mumbai -Premises No.59 & 61, Sonawala Building, 57, Mumbai Samachar Marg, Opp Bombay Stock Exchange, Fort, Mumbai - 400 001, Maharashtra |
| For Non-Resident Shareholders | Mumbai -IndusInd House, 425, Dadasaheb Bhadkamkar Marg, Mumbai - 400 004 Mumbai -Premises No.59 & 61, Sonawala Building, 57, Mumbai Samachar Marg, Opp Bombay Stock Exchange, Fort, Mumbai - 400 001, Maharashtra |

Shareholders residing at locations where the Bank's collection centres are not available, may send their First and Final Call Money along with the completed payment slip by registered post/speed post at the office of the Registrar to the Issue: **Link Intime India Private Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India.** Tel No.: +91-22-49186200, stating the requisite details along with Cheque/Demand Draft payable at Mumbai, such that the same are received on or before the last date of payment of the First and Final Call Money i.e. **Friday, February 4, 2022**.

In accordance with SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, read with SEBI circulars bearing reference numbers SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020, SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/13 dated January 19, 2021, SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/552 dated April 22, 2021 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/633 dated October 1, 2021 (the "SEBI Relaxation Circulars"), a separate web-based application platform, i.e. the R-WAP facility (accessible at www.linkintime.com; Link: <https://web.linkintime.co.in/RightsIssues/Index.html>), has been instituted for making the payment for the First and Final Call by resident shareholders. At the R-WAP webpage, resident shareholders can access and make the payment in electronic mode using the R-WAP. Resident shareholders, making the payment through R-WAP, shall make online payment using internet banking or UPI facility.

Please note that, failure to pay the First and Final Call Money pursuant to the Final Demand cum Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the Rights Equity Shares, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The trading in ISIN - IN9087A01017 representing partly paid-up equity shares of face value ₹ 10 each (₹ 5 paid-up) i.e. Rights Equity Shares has been suspended by the Stock Exchanges effective from December 1, 2021. Further the ISIN - IN9087A01017 representing Rights Equity Shares has been suspended by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) effective end of business hours on December 2, 2021.
- The process of corporate action for converting the partly paid-up rights equity shares to the fully paid-up equity shares under the present ISIN - IN087A01019 for the existing fully paid-up equity shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and Final Call Money pursuant to the Final Demand cum Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the Rights Equity Shares shall be converted into fully paid-up Equity Shares and would be credited to ISIN - INE087A01019, allotted by depositories.
- In case of non-receipt of the Final Demand cum Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand cum Forfeiture Notice to the Registrar to the Issue or may also download the same from the Company's website: www.kesocorp.com (Link: <https://www.kesocorp.com/DCS/rights-issue.php>) or the Registrar's website: www.linkintime.co.in.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in this regard may be addressed to:
Link Intime India Private Limited
 C-101, 1st Floor, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India.
 Telephone: +91-22-4918 6200; Email: kesoram.rights@linkintime.com; Website: www.linkintime.co.in
 Investor Grievance Email: kesoram.rights@linkintime.com; Contact Person: Sumeet Deshpande
 SEBI Registration Number: INR00004058

Date : January 20, 2022 For KESORAM INDUSTRIES LIMITED
 Place : Kolkata Sd/-
 Raghuram Nath
 Company Secretary & Compliance Officer

HOTEL RUGBY LIMITED

(CIN: L55101MH1991PLC063265) ("HRL" / "TARGET COMPANY" / "TC")
 Registered Office: 9, Dev Bhuvan, 2, Ground Floor, Gazdar Street, Chirabazar, Kalbadevi, Mumbai, Maharashtra-400002, India
 Phone No. +91-22-22821721 / 22835745 / 22828401 Email: rugbyhotel@rediffmail.com; Website: www.hotelrugby.co.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC"), constituted by the Board of Directors of Hotel Rugby Limited ("Target Company") on the Open Offer to the shareholders of the Target Company made by Mrs. Shaik Hasena (Acquirer-1), Mr. Gangavarapu Prasanth (Acquirer-2) and Mr. Tangella Suresh (Acquirer-3) (hereinafter referred to as "the Acquirers"), pursuant to regulation 26 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011")

| | |
|---|---|
| 1. Date of the meeting | 20.01.2022 |
| 2. Name of the Target Company (TC) | Hotel Rugby Limited |
| 3. Details of the Offer pertaining to TC | The offer is being made by the Acquirers pursuant to Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, for acquisition of 37,23,928 (Thirty Seven Lakhs Twenty Three Thousand Nine Hundred and Twenty Eight Only) Equity shares of face value of Rs. 10/- each representing 26.00% of the equity and voting share capital of TC at a price of Rs. 3.75/- (Rupees Three and Seventy Five Paise only) per share, payable in cash. |
| 4. Name of the Acquirer(s) and PAC with the Acquirer(s) | Acquirer 1: Mrs. Shaik Hasena Acquirer 2: Mr. Gangavarapu Prasanth Acquirer 3: Mr. Tangella Suresh |
| 5. Name of the Manager to the Open Offer | Navigant Corporate Advisors Limited SEBI Registration Number: INM000012243 |
| 6. Members of the Committee of Independent Directors (IDC) | Mr. Ashok Kadakia – Chairman; Mr. Dinesh Patel – Member; Mr. Sanjay Kapur – Member. |
| 7. IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any | IDC members are Non-Executive Independent Directors on the Board of TC. Mr. Ashok Kadakia holds 1000 Equity shares and Mr. Sanjay Kapur is holding 3311 Equity shares in the TC. Mr. Dinesh Patel is not holding any Equity shares in the TC. None of the IDC Members have entered into any contract or have relationship of any kind with the TC except as Directors on the Board/ Directors and as member(s) or Chairperson of the Board Committees pursuant to thereto. |
| 8. Trading in the Equity shares / other securities of the TC by IDC Members | None of the IDC Members have traded in the shares / other securities of the Target Company, during the period of 12 months prior the date of Public Announcement (PA) and period from the date of PA till the date of this recommendation. |
| 9. IDC Member's relationship with the Acquirer(s) or PAC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any | None of the Members of IDC has entered into any contract with or have relationship of any kind with the Acquirer(s). |
| 10. Trading in the equity shares / other securities of the Acquirers or PAC by IDC Members | Not applicable |
| 11. Recommendation on the Open Offer, as to whether the Offer is fair and reasonable | The IDC is of the opinion that the Offer Price is in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and appears to be fair and reasonable. |
| 12. Summary of reasons for recommendation | The IDC has perused the following documents, in connection with the Offer, so far issued by Navigant Corporate Advisors Limited, the Manager to the Offer, for and on behalf of Acquirers: a. PA dated December 3, 2021; b. Detailed Public Statement dated December 09, 2021 ("DPS") published on December 10, 2021; c. Draft Letter of Offer dated December 17, 2021 ("DLOF"); and d. Letter of Offer dated January 11, 2022 ("LOF") Based on the above, the IDC is of the opinion that the Offer Price, being offered by the Acquirers, is in compliance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and appears to be fair and reasonable. However, the Public shareholders of the Target Company should independently evaluate the Offer and take informed decision whether to tender their equity shares in the Open Offer or not. |
| 13. Details of Independent Advisors, if any | None |
| 14. Any other matter(s) to be highlighted | Nil |

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

For and on behalf of Committee of Independent Directors of Hotel Rugby Limited
 Sd/-
 Mr. Ashok M. Kadakia
 Chairman-Committee of Independent Directors
 DIN: 00317237
 Place: Mumbai
 Date: 20.01.2022

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT DATED JANUARY 08, 2022 FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF

Clariant Chemicals (India) Limited

Corporate Identity No.: (CIN) L24110MH1956PLC010806
 Registered Office: Reliable Tech Park, Gut No. 31, Village Elithan, off Thane Belapur Road, Airoli, Navi Mumbai 400 708, Maharashtra, India.
 Tel No.: (+91) 22 7125 1000; Fax No.: (+91) 22 7125 1201; Website: www.clariant.in;
 E-mail: investor.relations_india@clariant.com

Open offer for acquisition of up to 6,001,268 (six million one thousand two hundred sixty-eight) ("Offer Shares") fully paid up equity shares having a face value of INR 10 (Indian Rupees ten only) each ("Equity Share(s)") of Clariant Chemicals (India) Limited ("Target Company" or "Company"), representing 26.00% (twenty six percent) of the Voting Share Capital, from the Public Shareholders of the Target Company, by Luxembourg Investment Company 428 S.a.r.l. ("Acquirer"), together with Luxembourg Investment Company 426 S.a.r.l. ("PAC 1"), Clariant AG ("PAC 2"), Heubach Holding GmbH ("PAC 3"), Ravi Kapoor ("PAC 4"), Heubach Verwaltungen GmbH ("PAC 5") and Colorants International AG ("PAC 6" and, along with PAC 1, PAC 2, PAC 3, PAC 4 and PAC 5, the "PACs"), in their capacity as persons acting in concert with the Acquirer in compliance with Regulations 3(1), 4 and 5(1) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI SAST Regulations" and reference to a particular "Regulation" shall mean the particular regulation of the SEBI SAST Regulations) ("Open Offer" or the "Offer").

This corrigendum ("Corrigendum") is being issued by ICICI Securities Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs in respect of the Offer to the Public Shareholders of the Target Company.

This Corrigendum should be read in conjunction with:

- the detailed public statement dated January 08, 2022 published on January 10, 2022 in Financial Express (English newspaper - all editions); (ii) Jansatta (Hindi newspaper - all editions); and (iii) Navshakti (Mumbai Edition) ("Detailed Public Statement"); and
- the draft letter of offer dated January 17, 2022 filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in connection with the Offer ("Draft Letter of Offer").

CORRIGENDUM

- The Public